



VRL/SEC/EXCHANGE

20.01.2021

**National Stock Exchange of India Ltd.**  
5<sup>th</sup> Floor, Exchange Plaza  
Bandra (E),  
Mumbai- 400 051  
Script Code: VENUSREM

**BSE Limited**  
25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy  
Towers Dalal Street  
Mumbai  
Script Code: 526953

**Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication**

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of Notice E-voting and Extra Ordinary General Meeting.

Thanking you.

for VENUS REMEDIES LIMITED

## VENUS REMEDIES LIMITED

**Corporate Office :**

51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

**Regd. Office :**

SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra,  
Chandigarh (U.T.) 160101, India

Website : [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)

[www.vmrindia.com](http://www.vmrindia.com)

Email : [info@venusremedies.com](mailto:info@venusremedies.com)

**Unit-I :**






51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India  
Tel. : +91-172-3933094, 3933090, 2565577, Fax : +91-172-2565566

**Unit-II :**

Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.),  
Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India  
Tel. : +91-1795-302100, 302101, 302107, Fax : +91-1795-271272

**Unit-V :**

VENUS INDIA LTD. C-1073



संक्षेप में }

**धी यूके की टीसीएस के साथ साझेदारी**

सुचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंट्स सर्विसेज (टीसीएस) के साथ ब्रिटेन की अग्रिमी मोबाइल नेटवर्क कंपनी धी यूके ने 5जी प्रौद्योगिकी शुरू करने में तेजी लाने के लिये साझेदारी की है। टीसीएस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। टीसीएस ने एक बयान में कहा, 'टीसीएस को नई पॉर्ट के कोर मोबाइल नेटवर्क की संरचना का प्रबंधन करने तथा 5जी रेंडिंग एक्सेस नेटवर्क के साथ उसका एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये चुना गया है। इस काम में नई जगहों पर लगाने के लिये कोर नेटवर्क की संरचना तैयार करना, स्थानों का उन्नयन करना, बहतर प्रदर्शन का प्रबंधन करना और 5जी व 4जी की ट्रॉफिंग में बदलाव करना शामिल है।' भाषा

**हीरो मोटर्स की हैवलैंड इंजीनियरिंग में हिस्सेदारी**

आटो विनियामा हीरो मोटर्स ने सोमवार को कहा कि उसने ब्रिटेन की ट्रांसमिशन डिजाइन फ्रौदोगिकी कंपनी हैवलैंड इंजीनियरिंग में रानीतिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है, हालांकि कंपनी ने सौंदर्य की रकम के बारे में नई बताया। हीरो मोटर्स कंपनी (एचएमसी) ने एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण से उसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भारत में तेजी से उत्पाते इलेक्ट्रिक वाहन खेड़ में उच्च गुणवत्ता वाले ट्रांसमिशन उत्पादन की पेशकश में मदद मिलेगी। एचएमसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पंकज एम मुंजाल ने कहा, 'यह निवेश ट्रांसमिशन उत्पाद खेड़ में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ को दर्शाता है।'

भाषा

**रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स विस्तार की राह पर**

विकेट सुजन पिंटो  
मुंबई, 18 जनवरी

पिंटोले सुजाह में कैफे शूखला स्टारबक्स और मल्टीप्लेक्स परिचालक आईनॉक्स ने विभिन्न शहरों में एक साथ ही तीन परिसंपत्तियों की शुरूआत की है। आने वाले महीनों के दौरान उनकी योजना और अधिक परिसंपत्तियों की शुरूआत करने की है तथा मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, यम ब्रांड्स और पीवीआर जैसी उनकी प्रतिस्पद्धी भी एसा ही करने वाली हैं।

चूंकि देश अपने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत कर रहा है, इसलिए कंपनियों द्वारा

पिंटोले सुजाह में विभिन्न प्रकार के लैन-डेन के लिए शीस मेंटेनेंस लिमिटेड कम्पनी की असाधारण अम बैंक पीसीसीसी (ई-टीसी) एम द्यूप्र व्हायप्र कम्पनी की सुधारणा के माध्यम से बुराया, 10 फरवरी, 2021 को 11:30 बजे पूरा आयोजित की जायेगी। ई-टीसी की सुधारणा कंपनी के सदस्यों के पास एसी-एस तो गम रही।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए एक बड़ी घटना हो गई।

पिंटोले सुजाह के लिए ए



## NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING

Notice is hereby given that:

### (1) Extra Ordinary General Meeting (EGM)

The Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Venus Remedies Ltd. Company will be held on Wednesday, 10th February 2021 at 11.30 A. M. through video conferencing ("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility to transact the business as set out in the notice of the EGM. Notice of EGM have been e-mailed to the members of the company. The same is also available on the Company's website i.e. [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com).

### (2) E-Voting:

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 3rd February 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) through Insta Vote. The e-voting shall commence on 7th February, 2021 (9.00 a.m. IST) and ends on 9th February, 2021 (5.00 p.m IST).

Members may note that the e-voting module shall be disabled by the LIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for remot e-voting shall be made available during the meeting. The members who have cast their vote by e-voting prior to EGM shall not be allowed to vote again.

Any person who acquire shares of the Company after emailing the notice of EGM but on or before the cut-off date i.e. 3rd February 2021, can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure of e-voting as mentioned in the notice of EGM.

The grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Swapna Kumar Naskar, Ms. Link Intime India Pvt. Ltd. Email: [swapann@linkintime.co.in](mailto:swapann@linkintime.co.in), Ph-011-49411000.

By order of Board of Directors  
For Venus Remedies Limited

Sd/-

Managing Director

## VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2<sup>nd</sup> Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160011, India  
Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India

CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone : 0172-2933090, 2933094

Email: [complianceofficer@venusremedies.com](mailto:complianceofficer@venusremedies.com), Website: [www.venusremedies.com](http://www.venusremedies.com)

